



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 चैत्र 1933 (श0)

(सं0 पटना 92)

पटना, सोमवार, 28 मार्च 2011

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

14 मार्च 2011

सं. 1/रा.स्था. (7) नियुक्ति-09/2010 सह.-1258—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 48वीं से 52वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार सहकारिता सेवा (प्रशासनिक प्रभाग, वर्ग-2 समूह 'ख') के अन्तर्गत सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों (जिनका स्थायी अथवा अस्थायी पता से चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त है)को अधोलिखित शर्तों के साथ वेतनमान रु. 9300-34,800 (पे बैंड-2) + ग्रेड वेतन रु. 4800 में राज्य सरकार द्वारा उस पर समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ औपबंधिक रूप से अगले छः माह के लिए सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के रूप में प्रभार ग्रहण की तिथि से नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें उनके नाम के सामने स्तम्भ-8 में अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है।

पंचायतों के निर्वाचन के मद्देनजर घोषित आचार संहिता के आलोक में उक्त नियुक्ति/ पदस्थापन में राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार से सहमति प्राप्त की गई है।

| क्र. सं. | अभ्यर्थी का नाम एवं पिता का नाम तथा स्थायी पता | गृह जिला | पत्राचार का पता | संयुक्त मेघाक्रम | जन्म तिथि | आरक्षण कोटि | पदस्थापन पद का कार्यालय एवं स्थान |
|----------|--|----------|---|------------------|------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | सुश्री लवली पिता - श्री सत्यादेव विश्वकर्मा ग्राम- कनाप पोस्ट - कनाप थाना- दाउदनगर जिला - औरंगाबाद, 824120 | औरंगाबाद | सुश्री लवली सेक्टर - 8A होस्टल, ब्लॉक- A क्वाटर नं. -213, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो, झारखण्ड 827009 | 487 | 06.04.1983 | पिछड़ा वर्ग की महिला | सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, समस्तीपुर अंचल, समस्तीपुर। |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------------|--|-----|------------|------------------------------|---|
| 2. | श्री हीरा लाल नाग, पिता— स्व.चुनिया नाग ग्राम— रब्बाई पो0— जितुटोली सिमडेगा (झारखण्ड) 835201 | सिमडेगा झारखण्ड | श्री हीरा लाल नाग द्वारा— श्री जयंत टोप्पो, करमटोली चौक, बुटी रोड, राँची (झारखण्ड) 834008 | 791 | 12.05.1976 | सामान्य कोटि (विकलांग) | सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, झंझारपुर अंचल, झंझारपुर (मधुबनी) |
|----|--|--------------------|--|-----|------------|------------------------------|---|

1. उपर्युक्त सभी अभ्यर्थियों की औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ अगले छः माह के लिए की जाती है कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होने पर उनकी सेवा तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी। छः माह के अन्दर चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इन औपबंधिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थियों की सेवा अगले छः माह के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर विस्तारित किया जायेगा।

2. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण—पत्र/अन्य प्रमाण—पत्रों की संपुष्टि में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब उनकी सेवा तात्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जायेगी तथा भुगतान की गयी राशि, प्रशिक्षण पर हुए व्यय के साथ इनसे वसूलनीय होगी।

3. औपबंधिक रूप से नियुक्त पदाधिकारी अपने नियंत्री पदाधिकारी/जिला सहकारिता पदाधिकारी के मार्ग दर्शन में अपने कार्यालय कार्यों का निष्पादन करेंगे।

4. औपबंधिक रूप से नवनियुक्त अभ्यर्थियों को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे मूलरूप में ही प्रस्तुत कर भार त्यागी/जिला सहकारिता पदाधिकारी से प्रभार ग्रहण करेंगे अन्यथा संबंधित भारत्यागी पदाधिकारी उन्हें प्रभार नहीं सौंपेंगे।

5. निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के द्वारा बिहार सहकारिता सेवा नियमावली के नियम-37 के अधीन अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार औपबंधिक रूप से नियुक्त सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ प्रशिक्षण में रहेंगे और इसी दौरान अपने नियंत्री पदाधिकारी के अधीन सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए संबद्ध रहेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
एस. के. नेगी,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 92-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>